

May 29, 2020

DCS-CRD
BSE Limited
Phiroza Japiachhov To

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001

Scrip Code: 519183

Dear Sir/Madam,

DCS-CRD National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza Bandra - Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051

Symbol: ADFFOODS

Sub: Submission of Newspaper advertisement pursuant to Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017.

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we would like to inform you that in compliance with Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017 effective from February 28, 2017, the Company has published notice in "Financial Express (all India editions), Financial Express - Gujarati (Ahmedabad edition) and Jansatta - Hindi (Delhi, Chandigarh, Kolkata and Lucknow edition) on May 27, 2020.

This is for your information and record.

Thanking you.

Yours faithfully, For **ADF Foods Limited**

Shalaka Ovalekar Company Secretary

Encl: A/a



Corp. Off: Marathon Innova, B2, G01, Ground Floor, G. K. Road, Lower Parel, Mumbai 400 013. INDIA. Tel.: +91 22 6141 5555, Fax: +91 22 6141 5577, Email: info@adf-foods.com, Web: www.adf-foods.com

Investment Manager: BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC) Corporate Identity Number (CIN): U65991MH2003PTC142972

Registered Office: BNP Paribas House, 1 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra - East, Mumbai - 400 051. Website: www.bnpparibasmf.in · Toll Free: 1800 102 2595

NOTICE NO. 24/2020

Disclosure of Unaudited Half Yearly Financial Results of the Schemes of BNP Paribas Mutual Fund (the Fund) NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT in terms of Regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Unaudited Financial Results of the Schemes of BNP Paribas Mutual Fund for the Half year ended March 31, 2020 has been hosted on the website of the Fund (https://www.bnpparibasmf.in/downloads/scheme-financials) and AMFI respectively.

For BNP Paribas Asset Management India Private Limited (Investment Manager to BNP Paribas Mutual Fund)

Jyothi Krishnan

Head of Compliance, Legal & Secretarial

Date: May 26, 2020 Place: Mumbai

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

AICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

ICICI Prudential Asset Management Company Limited Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com. Email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan -Series 81 - 1116 Days Plan I (the Scheme)

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved declaration of the following dividend under the dividend option of the Scheme, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e on June 1, 2020*:

Name of the Scheme/Plan	Dividend	NAV as on
	(₹ per unit)	May 22, 2020
	(Face value of ₹ 10/- each) ^{\$#}	(₹ per unit)
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Ser	ies 81 - 1116 Days Pla	n I

Direct Plan - Dividend 0.0500 12.5197 \$ The dividend payout will be subject to the availability of distributable surplus and

- may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the dividend option of the Scheme.
- Subject to deduction of applicable statutory levy.
- * or the immediately following Business Day, if that day is a Non Business Day.

Dividend will be paid to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the dividend option of the Scheme, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of dividend, the NAV of the dividend option of the Scheme would fall to the extent of dividend payout and statutory levy (if applicable).

Suspension of trading of units of the Scheme:

The units of the Scheme are listed on BSE. The trading of units of the Scheme will be suspended on BSE with effect from closing hours of trading of May 27, 2020.

For the purposes of redemption proceeds, the record date shall be June 1, 2020.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Place: Mumbai Date: May 26, 2020

No. 010/05/2020

Authorised Signatory

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com BSE Disclaimer: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Scheme Information Document (SID) has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the SID. The investors are advised to refer to the SID for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

WELSPUN ENTERPRISES WELSPUN ENTERPRISES LIMITED CIN: L45201GJ1994PLC023920

Reg. Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, District Kutch, Gujarat-370110 Tel.: +91 2836 662222, Fax +91 2836 279010 Corp. Office: Welspun House, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra - 400013. Tel.: +91 22 6613 6000, Fax: +91 22 2490 8020

Website: www.welspunenterprises.com, Email ld: companysecretary_wel@welspun.com NOTICE OF BOARD MEETING

IOTICE is nereby given pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Oblig and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday, May 29, 2020**, *inter alia,* to consider and approve the standalone as well as the consolidated Audited Financial Statements of the Company for the year ended March 31, 2020.

Further, trading window for dealing in the securities of the Company by the Insiders, as defined under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 is closed from Wednesday, April 1, 2020 to Monday, June 1, 2020 (both days inclusive).

For Welspun Enterprises Limited

Place: Mumbai Date: May 26, 2020

Priya Pakhare Company Secretary FCS - 7805



State Project Implementation Unit, Uttarakhand (A Unit for Implementing World Bank Funded Project-UKWDP) **Government Industrial Training Institute (Women) Campus** 26-EC Road, Dehradun - 248001. Email- spiuukwdp@gmail.com

CORRIGENDUM No. 6 (EXTENTION IN BID SUBMISSION)

Name of Project: Uttarakhand Workforce Development Project (UKWDP) All prospective bidders are hereby informed that the bid Submission dates for the packages mentioned below has already been extended thrice due to the unprecedented conditions prevailing in the country. Due to the numerous representation received from the prospective bidders requesting for extension, the last date of submission of the technical bid is further extended as per the table below.

		date		date
	As per Corrigendum N	0 4	1	
For Fitter Trade IN- SPIUUKWFDP - 154891- GO-RFB- 01	29th May 2020,11am uploading on www.uktenders.gov.in 29th May 2020, 2pm Physical submission at SPIU office	29 th May 2020, 4pm	16th June 2020,11am uploading on www.uktenders.gov.in 23th June 2020, 2pm Physical submission at SPIU office	23 rd June 2020, 4pm
For Electrician Trade Ref.no. IN- SPIU- UKWFDP- 154891-GO- RFB-02	30th May 2020,11am uploading on www.uktenders.gov.in 30th May 2020, 2pm Physical submission at SPIU office.	30 th May 2020, 4 pm	17th June 2020,11am uploading on www.uktenders.gov.in 24th June 2020, 2 pm Physical submission at SPIU office.	24 th June 2020, 4pm

It is further informed that this may be treated as the last and final extension and no further date extension shall be done. All prospective bidders are informed to work actively to ensure the timely bid submission. Further as per the above table, a window of additional seven(7) days is being provided for hardcopy submission of documents, failing which the bid will not be admitted. The rest of the terms and conditions shall remain unchanged.

Note: This corrigendum will be uploaded on websiteswww.uktenders.gov.in and www.uksdm.org.

Project Director

FEDERAL BANK

YOUR PERFECT BANKING PARTNER

THE FEDERAL BANK LTD. REG. OFFICE: PB. No: 103, FEDERAL TOWERS ALUVA, KERALA, INDIA - 683 101 Phone: 0484-2622263, E-MAIL: secretarial@federalbank.co.in, Website: www.federalbank.co.in, CIN: L65191KL1931PLC000368

NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29(1)(a)/29(2) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby wish to inform you that a meeting of Board of Directors of the Bank is scheduled to be held on Thursday 28th May, 2020 to inter alia consider and approve the Audited Financial Results for the quarter and year ending 31st March, 2020 along with the Consolidated Financial Results for the year ending 31st March, 2020.

This intimation is also available on the website of the Bank at www.federalbank.co.in as well as on the website of BSE Limited, www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited, www.nseindia.com

> For The Federal Bank Limited Sd/-

Aluva 26.05.2020

Samir P Rajdev Company Secretary PRUDENTIAL -TARAKKI KAREINI

AICICI MUTUAL FUND **ICICI Prudential Asset Management Company Limited**

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135 Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.

Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express

Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.

Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313 I) Notice-cum-addendum to Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) of select schemes of ICICI Prudential Mutual Fund (the Fund)

Notice is hereby given that Freedom SWP is now available under select schemes of the Fund with effect from June 1, 2020.

Freedom SWP# allows investors to periodically withdraw a fixed amount i.e. 6% p.a. from the investment corpus, along with an option of Yearly Top Up of either 3%p.a., 4% p.a. or 5% p.a.

Key Features of Freedom SWP:

- 1. List of eligible schemes* wherein Freedom SWP is available:
 - ICICI Prudential Equity & Debt Fund
 - ICICI Prudential Multi-Asset Fund
 - ICICI Prudential Asset Allocator Fund (FOF) ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
 - ICICI Prudential Retirement Fund Hybrid Aggressive Plan

 - ICICI Prudential Retirement Fund Hybrid Conservative Plan
 - ICICI Prudential Regular Savings Fund
 - ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF)

any of the eligible schemes in the list stated above. 2. Freedom SWP is available only under Growth Option of the eligible schemes.

*ICICI Prudential Asset Management Company Ltd. reserves the right to add or delete

- 3. Investors should specify the amount on which Freedom SWP will be calculated.
- 4. Initial annual SWP Withdrawal would be at 6% p.a.
- 5. Annual Top-Up Options available are 3% p.a., 4% p.a. or 5% p.a. In case no Top up option is selected by the investor, the default Top up shall be 3% p.a.
- 6. Freedom SWP shall be available under monthly frequency only.
- 7. Freedom SWP shall be processed till units are available in the scheme or till the end date specified, whichever is earlier.

All other conditions pertaining to SWP as stated in the SIDs of the schemes shall apply to this facility as well.

#Please read terms & conditions in the application form before investing or visit www.iciciprumf.com. This facility should not be associated or confused with Freedom

SIP; the two are separate facilities provided by ICICI Prudential AMC Limited. All the other provisions of the SIDs/KIMs/SAI/addenda of the schemes except as specifically modified herein above remain unchanged.

This Notice-cum-addendum forms an integral part of the SIDs/KIMs/SAI/addenda of the schemes, as amended from time to time.

II) Notice-cum-addendum to Statement of Additional Information (SAI) of the Fund Notice is hereby given that Mr. C.R. Muralidharan (DIN: 02443277) has ceased to be the Chairman and Independent Director on the Board of ICICI Prudential Asset Management Company Limited ("the AMC") with effect from May 20, 2020 pursuant to completion of his tenure.

This Notice-cum-addendum forms an integral part of the SAI of ICICI Prudential Mutual Fund, as amended from time to time. All the other provisions of the SAI except as specifically modified herein above remain unchanged.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Date: May 26, 2020 No. 011/05/2020

Place: Mumbai

Authorised Signatory

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id

and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

OSBI

Anytime Channels Department, Air India Building, Corporate Centre, Nariman Point, Mumbai - 400 021. E-mail: dgm.atmins@sbi.co.in

CORRIGENDUM-IV

Please refer our Corrigendum (RFP No.SBI/AC/2019-20/006 dated 17.03.2020 for Installation of 10,000 ATMs under Total Outsourced Model (TOM) PHASE XIV (YR. 2020). In this regard pre-bid meeting is scheduled on 29.05.2020 via video/audio conference. The details are available on the link "Procurement News" on Bank's website https://bank.sbi or https://sbi.co.in.

Place: Mumbai Date: 27/05/2020 Deputy General Manager (ATM-I&S)

Housing & Urban Development Corporation Ltd. (A Govt. of India Enterprise) CIN: L74899DL1970GOI005276 GST No.: 07AAACH0632A1ZF

Regd. Office: HUDCO Bhawan, Core - 7A, India Habitat Centre,

Lodhi Road, New Delhi-110003, Tel : (EPABX) 011-24649610, 24648196 Fax No.: +91-(011) 24625308, Website: www.hudco.org NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST (EOI) EOI No. HUDCO/C&C/C&PM/PMC-EMPANELMENT/2020 HUDCO invites Expression of Interest (EOI) from Firms and Consultants for "Empanelment of Project Management Consultants(PMC)" for undertaking

construction & Infrastructure projects valued upto Rs. 250 Cr., as per detail contained in the EOI document. Interested agencies can download the EOI document from HUDCO's website www.hudco.org or www.eprocure.gov.in/epublish/app. Last date for submission of EOI is 29/06/2020.

Corrigendum if any, shall be posted on above websites only. Executive Director (C&C)



NMDC Limited (A Government of India Enterprise) DONIMALAI IRON ORE MINE DONIMALAI TOWNSHIP-583 118, DIST. BELLARY (KARNATAKA)

OPEN TENDER NOTIFICATION

SI. No.	Tender No. & date	Name of Work	Cost of Work (₹)	EMD (in ₹)	Sale / download period From-To	Last date of Submission upto 15:00 Hrs
1	CE/W/8(431) /2020 Date 27/05/2020	"Care Taking of Corporation Assets provided in Public Buildings and extending services to various Public Functions for a period of one year (Job Contract Basis)"	32.72 Lakhs	32716/-	27.05.2020 To 26.06.2020	
2	CE/W/10(144) /2020 Date 27/05/2020	"Providing Bore well, Pump and Pipe line for Drinking water at Ranjithpura Village"	24.29 Lakhs	24290/-	29.05/2020 To 29.06.2020	
3	CE/W/10(143) /2020 Date 27/05/2020	"Providing Bore well, Pump and Pipe line for Drinking water at Mallapura Village"	11.01 Lakhs	11020/-	01.06.2020 To 30.06.2020	30.06.2020
4	CE/W/10(142) /2020 Date 27/05/2020	"Providing Bore well, Pump and Pipe line for Drinking water at Navalatti Village"	11.01 Lakhs	11020/-	02.06.2020 To 01.07.2020	01.07.2020
5	DNM/PLM/PL- B&C /OTE/2020-21 Date 27/05/2020	"Pulley Lagging work with Category B & C at OCSL Plant for one year i.e. 2020-21"	18.60 Lakhs	18600/-	27.05.2020 To 26.06.2020	Recognitions

Further clarification, tender related SI, No. 1 to 4 may contact diomcivil@nmdc.co.in or by fax message to 08395-274644 and Sl. No. 5 may contact diomplant@nmdc.co.in/08395-232568. The detailed NIT and tender documents can be viewed and /or downloaded from NMDC's website https://www.nmdc.co.in/nmdctender/default.aspx or Central Public Procurement Portal https://www.eprocure.gov.in. And also, for any corrigendum, amendment, clarification etc may please follow the above website. For and on behalf of NMDC Limited Date: 27/05/2020 Jt. GM (Production)

ASHIANA HOUSING LTD. CIN: L70109WB1986PLC040864

Regd. Off.: 11G, Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata - 700 071 Head Off.: Unit No. 4 & 5, Illrd Floor, Southern Park. Plot No. D-2 Saket District Centre, New Delhi -110 017 Website: www.ashianahousing.com Email: investorrelations@ashianahousing.com

PUBLIC NOTICE

This is to inform to all concerned that the company has received request along with necessary indemnity bond and affidavit from shareholder(s) of the company to issue duplicate share certificate in lieu of the lost share certificate, details

of w	of which is given herein below :								
SI. No.	Name of Regd. Shareholder	L. F. No.	Share Certificate No.	Distinctive No.	No. of Shares				
1.	Mr. Rajeev Kumar	14152	2691	5003001-5004750	1750				

Since the company is in the process of issuing duplicate share certificate, any person who has objection on such issue, may lodge his objection within 15 days from the date of appearance of this advertisement to the company or its Registrar M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi-110 062.

For Ashiana Housing Ltd. Place: New Delhi Nitin Sharma Date: 26th May, 2020 (Company Secretary)

(CK BIRLA CROUP

orient

switch to smart

Orient Electric Limited

CIN: L311000R2016PLC025892 Registered Office:

Unit VIII, Plot No. 7, Bhoinagar Bhubaneswar - 751012, Odisha Tel: 0674-2396930 Fax: 0674-2396364

Corporate Office: 240, Okhla Industrial Estate Phase - III, Delhi - 110020 Tel: 011-40507000

Fax: 011-40507004

E-mail: investor@orientelectric.com, Website: www.orientelectric.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, June 01, 2020 to inter alia consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the guarter and year ended March 31, 2020 and declaration of final dividend for the financial year 2019-20, if any.

This Notice is also available on the website of the Company and Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed viz., www.orientelectric.com. www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. By order of the Board of Directors

For Orient Electric Limited May 26, 2020 Hitesh Kumar Jain Company Secretary New Delhi

ADF Foods Limited

CIN: L15400GJ1990PLC014265 Regd. Office: 83/86 GIDC Industrial Estate, Nadiad 387 001, Gujarat

Tel.: 0268-2551381/2; Fax: 0268-2565068 Email id: co_secretary@adf-foods.com; Website: www.adf-foods.com

NOTICE

TRANSFER OF THE EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

This Notice is hereby given to the Shareholders of the Company pursuant to Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017 ("IEPF Rules") which are effective 28" February, 2017.

In terms of the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the IEPF Rules, the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven (7) consecutive years or more are liable to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF").

In view of the outbreak of COVID-19 pandemic in India, the Company is unable to send individual notices to those shareholders who have not claimed their dividend for seven (7) consecutive years or more in term of IEPF rules. The Company shall dispatch notices to aforesaid shareholders at their registered address once the normalcy resumes, inter-alia, providing them the details of their unclaimed dividend and giving them an opportunity to claim the said unclaimed dividend latest by Monday, 31" August, 2020, to avoid transfer of their shares to the Demat Account of the IEPF Authority. Further, an email communication in this regard is being sent to those Shareholders whose e-mail addresses are available with the Company/ Registrar and Transfer Agents.

In terms of Rule 6 of the IEPF Rules, a statement containing details of the name(s) of the Shareholder(s) and their Folio Number/ DP ID-Client ID whose shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority is available on our website www.adf-foods.com for information and necessary action by the Shareholder(s). In case no valid claim in respect of such equity shares is received from

the Shareholders by Monday, 31" August, 2020, the said equity shares

shall be transferred to the Demat Account of IEPF Authority as per the

procedure stipulated under the IEPF Rules. In this connection, please

i. For Shares held in physical form: New Share Certificate(s) will be issued and transferred subsequently to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice. Further, upon issue of such new Share Certificate(s), the original Share Certificate(s) which are registered in your name will stand automatically cancelled and

i. For Shares held in electronic form: The shares will be directly transferred to the Demat Account of the IEPF Authority with the help of Depository Participant(s) without any further notice.

deemed to be bad delivery.

Place: Mumbai

Date: May 27, 2020

It may be noted that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and shares transferred to IEPF pursuant to the IEPF Rules. Upon transfer to the Demat Account of the IEPF Authority, the Shareholders can claim the equity shares along with the dividend(s) from the IEPF Authority by making an online application, for which the details are available at www.iepf.gov.in. In case of any queries/ clarifications, the concerned Shareholders may

contact the Company's Registrar & Transfer Agents - M/s. Link Intime India Private Limited quoting the Folio Number/ DP ID - Client ID at Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400 083, Tel. No.: 022 4918 6270, e-mail ID: iepf.shares@linkintime.co.in. For ADF Foods Limited

Sd/-Shalaka Ovalekar Company Secretary

KIRLOSKAR

PNEUMATIC CO. LTD. A Kirloskar Group Company Registered Office: Hadapsar Industrial Estate, Pune - 411013

CIN: L29120PN1974PLC110307



Enriching Lives

NOTICE

This Notice is published pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("The Rules") and amendments thereof. The Rules, inter alia, contain provisions for transfer of all shares

shareholders for seven consecutive years in the name of Investor Education and Protection Fund Authority Account ("IEPF Authority"). The required communication in this behalf will be sent to the shareholders (who have not claimed their dividend for a period of seven consecutive years from the financial year 2012-2013

and whose shares are liable to be transferred to the

IEPF Authority under the said Rules) at the earliest possible

in respect of which dividend has not been paid or claimed by the

under the current situation. The complete details of the concerned shareholders whose dividends are unclaimed for seven consecutive years and whose shares are due for transfer to IEPF are uploaded on the Company's website "http://www.kirloskarkpcl.com" Notice is given to all such shareholders to make an application to the Company / Registrar with a request duly signed by all holders with proper identification proofs for claiming the unclaimed dividend, so that the shares are not transferred to the IEPF Authority. It may please be noted that if no reply is received

will be compelled to transfer the shares to the IEPF Authority without any further notice as per the procedure set out in the said Rules. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules. The shareholders may note that in the event of transfer of shares and the unclaimed dividends to IEPF, concerned shareholder(s) are entitled to claim the same from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the

by the Company / Registrar, till August 26, 2020, the Company

prescribed time. For further information / clarification / assistance, concerned shareholders may reach out to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company and / or the Company at below mentioned address:

same, duly signed to the company at it's Registered Office along with requisite documents enumerated in Form IEPF-5 within

LINK INTIME INDIA PVT. LTD. Unit: Kirloskar Pneumatic Company Limited Akshay Complex, Block No. 202, 2nd Floor, Near Ganesh Temple, Off. Dhole Patil Road, Pune 411001. Tel.: +91 (020) 26161629 / 26160084

E-mall: iepf.shares@linkintime.co.in

Hadapsar Industrial Estate. Pune 411 013. Tel.: 020-26727000, Fax: 020-26870297, Email: sec@kpcl.net

COMPANY LIMITED

KIRLOSKAR PNEUMATIC

For KIRLOSKAR PNEUMATIC COMPANY LIMITED

Place : Pune Date : May 26, 2020

Fax: +91 (020) 26163503

Company Secretary

Jitendra Shah

• Tel.No.: +91 20 26727000 • Fax: +91 20 26870297 E-mail: sec@kpcl.net • Website: www.kirloskarkpcl.com

"Mark bearing word Kirloskar in any form as a suffix or prefix is owned by Kirloskar Proprietary Ltd. and Kirloskar Pneumatic Company Ltd. is the Permitted Use:

financialexp.ep in

મુઝફ્ફરનગર સુગર મિલોની પિલાણની કામગીરી બંધ થઈ

પીટીઆઈ

મુઝફ્ફરનગર, તા. ૨૬

દીધી છે, તેમ અધિકારીએ

આપવામાં આવી હતી, તેમાંથી ટિકોલા બે વધુ મિલો બુધવારે કોરોનાવાઈરસને મંગળવારે જણાવ્યું હતું. બજાજ બંને મિલોએ પહેલાથી ખરીદીના મંજૂરી આપી હતી.

ગ્રૂપની ભૈસાણા સુગર મિલ દ્વારા કેન્દ્રો બંધ કરી દીધી છે. બાકી સોમવારની સીઝન માટે ખટોલી, મન્સુરપુર, ટીતાવી, કોરોનાવાઈરસને કારણે પિલાણની કામગીરી બંધ તોહાણ, મોરણા જેવી મિલો લાદવામાં આવેલા લોકડાઉન કરવામાં આવી હતી, તેમ જિજ્ઞા પિલાણનું કામ ચાલુ રાખશે, તેમ દરમિયાન જિક્ષાની આઠ મિલોને કેન અધિકારી આરડી દ્રિવેદીએ તેમણે ઉમેર્યું હતું. ખેડૂતોની કામગીરી કરવાની મંજૂરી જણાવ્યું હતું. ખાખેરી અને સુવિધા માટે ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે કારણે એકને શેરડીની પ્રાપ્તિ બંધ કરી કામગીરી બંધ કરવાની છે, તેમ લાદવામાં આવેલા લોકડાઉનમાં અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. આ આ સગર મિલોને કામગીરી માટે

મારુતિએ રિટેલ ફાયનાન્સ સ્ક્રીમ્સ માટે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક સાથે સંધિ કરી

પીટીઆઇ

નવી દિલ્હી, તા. ૨૬

(એમએસઆઇ) આજે જણાવ્યં હતું કે તેણે તેના ગ્રાહકોને રિટેલ ફાયનાન્સ યોજના રજૂ કરવા આઇસીઆઇસીઆઇ બેંક સાથે હાથ મેળવ્યા છે.

જોડાણના

મહિના માટે રૂા.૧ લાખની ૨કમ ઇચ્છા ધરાવતી બધી પ્રોફાઇલના રૂપે પર રૂા.૮૯૯ શરુ થાય છે. બેંક ગ્રાહકોને ચોક્કસ લાભ કરશે. ∣સંચાલિત ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ તેમ તેમાં જણાવાયું છે.

આઇસીઆઇસીઆઇ બેંક ફ્લેક્સી એમએસઆઇ ગ્રાહકો માટે બીજી ઇએમઆઇ યોજના રજૂ કરી રહી ઇએમઆઇ યોજનાને સમાન દેશની સૌથી મોટી કાર છે, જે કોવીડ-૧૯ રોગચાળાને રજૂઆત કરી રહી છે. મારુતી નિર્માતા મારુતી સુઝુકી ઇન્ડિયાએ કારણે પ્રવાહિ દબાણથી બહાર સુઝુકીના ૩,૦૦૦ આઉટલેટ આવવા તેમને મદદ કરવા અને આઇસીઆઇસીઆઇ બેંકના શરુઆતમાં નીચા ઇએમઆઇ સમગ્ર ભારતમાં ૫,૩૮૦ ચૂકવવા ગ્રાહકોને સક્ષમ કરશે. શાખાના વધારાના નેટવર્ક સાથે ઇએમઆઇ રકમ પ્રથમ ત્રણ ૨જુઆતમા કાર ખરીદવાની

કોરોનાના અવરોધો છતાં પણ

કેન્દ્રે કૃષકો પાસેથી ઘઉંના સંપાદનના ગત વર્ષના ૩૪.૧ ટનના સ્તરને કુદાવી દીધું

પીટીઆઇ

નવી દિલ્હી, તા. ૨૬

૨૦૨૦-૨૧ના માર્કેટિંગ વર્ષમાં અત્યાર સુધીમાં સરકારની ઘઉંની સારી ખરીદી કરી રહી છે. ૨૦૨૦-૨૧ માર્કેટિંગ વર્ષ માટે મિલિયન ખરીદી કરવાનું લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવેલું છે. ઘઉં માર્કેટિંગ વર્ષ એર્પિલથી માર્ચ સુધી ચાલતું હોવા છતાં, સામાન્ય રીતે ઘઉંની

ઇન્ડિયા(એફસીઆઇ)અને રાજ્ય એજન્સીઓ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે ઘઉંનો સ્ટોક ઠાલવવાની ખાસ ટાઇમ ઘઉંની ખરીદી કરે છે.

ખેડૂતો પાસેથી ઘઉની ખરીદી ગત મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે વર્તમાન પ્રવેશવા દેવામાં આવ્યા ન હતા. વર્ષની ૩૪.૧૩ મિલિયન ટન માર્કેટિંગ વર્ષમાં ઘઉંની કુલ દૈનિક હરાજી દરમિયાન માત્ર ઘઉંની ખરીદી કરવામાં આવી ખરીદી ૨૪મી મેએ ૩૪.૧૫ સંબંધિતોને જ હાજર રહેવા હતી તે સપાટીને કૂદાવી ગઇ છે, એમટીએ પહોંચી ગઇ હતી, જે દેવામાં આવ્યા હતા. ભારત કોવિડ-૧૯ ફાટી નીકળવાના ગત વર્ષના ૩૪.૧૩ મિલિયન સરકાર, એફસીઆઇ, રાજ્ય અવરોધો હોવા છતાં સરકાર ટન ઘઉંની ખરીદી કરતા વધારે છે. આમાંથી ૧૨.૫૮ એમટી એજન્સીઓ દ્વારા સારા સંકલિત ઘઉં પંજાબમાંથી, ૧૧.૩૩ પ્રયત્નો સાથે ઘઉંની ખરીદી હાથ ટન એમટી મધ્ય પ્રદેશમાંથી, ૭.૦૬ ધરવામાં આવી હતી. જે તમામ (એમટી)ઘઉંની ખેડૂતો પાસેથી એમટી હરિયાણા, ૨.૦૩ એમ સરપ્લસ રાજ્યોમાં સરળતાથી ટી ઉત્તરપ્રદેશમાંથી થઇ છે. પાર પડતા ખેડૂતોને મદદ મળી ઉત્તરાખંડમાંથી ૩૧હજાર ટન, હતી અને સેન્ટલ પુલમાં સ્ટોકને ગુજરાતમાંથી ૨૧ હજાર ટન, ફરી ભરી શકાયો હતો, તેમ તેમાં ચંડિગઢમાંથી ૧૨ હજા૨ટન અને વધુમાં જણાવાયું છે. મોટા ભાગની ખરીદી પ્રથ ત્રણ હિમાચલ પ્રદેશમાંથી ત્રણ હજાર માસમાં જ થતી હોય છે. સરકાર ટન ઘઉં ખરીદવામાં આવ્યા છે, ત્રીજા અંદાજમાં, ઘઉનું ઉત્પાદન

જગ્યા ફાળવવામાં આવી હતી એક નિવેદનમાં. અન્ન અને તે વિસ્તારમાં અન્ય કોઇને

> કેન્દ્રના કૃષિ મંત્રાલયના ૨૦૧૯-૨૦ના

પંજાબમાં, દરેક ખેડૂતને વર્ષ(જુલાઇથી જૂન)માં ઓલ ૧૦૭.૧૮- મિલયન ટન થયું રેકોર્ડ સપાટી- હોવાનો રહ્યો છે.

એમએફએ એપ્રિલમાં ૭ લાખ ફોલિયો ઉમેર્ચા કુલ સંખ્યા નવ કરોડની સપાટીને કૂદાવી ગઇ

વ્યાપક બજારોમાં વોલેટાલિટી વચ્ચે મ્યુચ્યુઅલ ફંડસ ઇન્ડસ્ટ્રીએ એપ્રિલમાં લગભગ સાતલાખ રોકાણકાર ખાતા ઉમેર્યા હતાસ જેથી ફ્રોલિયોની કુલ સંખ્યા ઉછળીને ૯.૦૪ કરોડે પહોંચી ગઇ હતી. આ સતત ૭૧મો મહિનો હતો કે જેમાં ફોલિયોની સંખ્યામાં વધારો થયો હતો, તેમ એસોસએિશન ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડસ ઇન ઇન્ડિયા તરફથી મળેલા ડેટામાં જણાવાયું છે.

ફોલિયો એ વ્યક્તિગત રોકાણકારના એકાઉન્ટસને ફાળવાયેલા નંબર છે. રોકાણકારને એકથી વધુ ફોલિયોઝ હોઇ શકે છે. ડેટા મુજબ, ૪૪ ફંડ હાઉસીઝ સાથેના ફોલિયોની સંખ્યા વધીને ૯,૦૪,૨૮, પ૮૯ એપ્રિના અંતે રહી હતી. જે માર્ચમાં ૮.૯૭.૪૬.૦૫૧ હતી. જેથી તેમાં ૫,૮૨,૫૩૮ ફ્રોલિયોની નોંધણીનો લાભ થયો છે. માર્ચમાં ૯ લાખ જેટલા રોકાણકાર ખાતામાં વધારો થવાથી ફોલિયોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. ફેબ્રુઆરીમાં, ઉદ્યોગે ૩ લાખ ફોલિયો, જાન્યુઆરીમાં ૧૪ લાખ ફોલિયો અને ડિસેમ્બરમાં ૬ લાખ ફોલિયો ઉમેર્યા હતા.

ASHIANA HOUSING LTD.

CIN: L70109WB1986PLC040864 Regd. Off.: 11G, Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata – 700 071 Head Off.: Unit No. 4 & 5, IIIrd Floor, Southern Park, Plot No. D-2 Saket District Centre, New Delhi -110 017 Website: www.ashianahousing.com

Email: investorrelations@ashianahousing.com PUBLIC NOTICE

This is to inform to all concerned that the company has received request along with necessary indemnity bond and affidavit from shareholder(s) of the compan to issue duplicate share certificate in lieu of the lost share certificate, de of which is given herein below:

	•				
SI. No.	Name of Regd. Shareholder	L. F. No.	Share Certificate No.	Distinctive No.	No. of Shares
1.	Mr. Rajeev Kumar	14152	2691	5003001-5004750	1750

Since the company is in the process of issuing duplicate share certificate any person who has objection on such issue, may lodge his objection within 15 days from the date of appearance of this advertisement to the company or its Registrar M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beeta House, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi-110 062.

Place : New Delhi Nitin Sharma (Company Secretary)

(CK BIRLA GROUP

orient switch to smart

Orient Electric Limited

CIN: L311000R2016PLC025892

Registered Office: Unit VIII, Plot No. 7, Bhoinagar Bhubaneswar - 751012, Odisha Tel: 0674-2396930

Corporate Office: 240, Okhla Industrial Estate Phase - III, Delhi - 110020 Tel: 011-40507000

Fax: 0674-2396364 Fax: 011-40507004 E-mail: investor@orientelectric.com, Website: www.orientelectric.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, June 01, 2020 to inter alia consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2020 and declaration of final dividend for the financial year 2019-20, if any.

This Notice is also available on the website of the Company and Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed viz., www.orientelectric.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

By order of the Board of Directors For Orient Electric Limited

May 26, 2020 New Delhi

Hitesh Kumar Iain Company Secretary

એડીએફ ફૂડ્સ લિમિટેડ

સીઆઇએનઃ L15400GJ1990PLC014265

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસઃ૮૩/૮૬, જીઆઇડીસી ઔદ્યોગિક વસાહત, નડિયાદ ૩૮૭૦૦૧, ગુજરાત ટેલીફોનઃ ૦૨૬૮-૨૫૫૧૩૮૧/૨ ફેક્સઃ ૦૨૬૮-૨૫૬૫૦૬૮; ઇમેઇલઃ co_secretary@adf-foods.com; વેબસાઇટઃ www.adf-foods.com

નોટિસ

ઈક્વિટી શેર્સનેઈન્વેસ્ટર એજ્યુકેશન અને પ્રોટેકશન ફ્રન્ડમાં ટ્રાન્સફરકરવા બાબત

૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭થી અમલમાં આવેલાઈન્વેસ્ટર એજ્યુકેશન અને પ્રોટેક્શન ફ્રન્ડ ઓથોરિટી (એકાઉન્ટિંગ, ઓડિટ, ટ્રાન્સફર અનેરિફન્ડ) સુધારા નિયમો ૨૦૧૭ ("IEPF નિયમો")ના નિયમ ૬ના અનુસંધાનમાં કંપનીના શેરધારકોને આથી અહીં આ નોટિસ મારફત જાણકરવામાં આવેછેકે .

IEPF નિયમો સાથે વંચાણે લેતા કંપનીઝ ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૨૪(૬)ની જોગવાઈઓ પ્રમાણે, શેરોજે પેટે સતત સાત (૭) વર્ષ અથવાતેનાથી વધુ વર્ષો સુધી ડિવિડન્ડના દાવા અથવાચૂકવણીથઈ નથીતેને કંપનીએઈન્વેસ્ટર એજ્યુ કેશન અને પ્રોટેક્શન ફન્ડ("IEPF")માં ટ્રાન્સફર કરી દેવાના રહે છે.

ભારતમાં પ્રવર્તમાન કોવિડ-૧૯ મહામારીના ફેલાવાને ધ્યાનમાં રાખીને, કંપની એવા તમામ શેરધારકોને વ્યક્તિગત નોટિસ પાઠવવા માટે સમર્થ નથી જેમણે સળંગ સાત (૭) અથવા તેથી વધુ વર્ષથી IEPF કાયદાના સંદર્ભમાં દાવો કર્યો નથી. એકવાર સ્થિતિ સામાન્ય થઇ જાય ત્યારે કંપની ઉપરોક્ત ઉલ્લેખિત શેરધારકોને તેમના નોંધાયેલા સરનામા પર નોટિસ રવાના કરશે, એટલે કે, તેમના દાવા કર્યા વગરના ડિવિડન્ડની માહિતી આપશે અને તેમને કથિત દાવો કર્યા વગરના ડિવિડન્ડ માટે દાવો કરવાની તક આપશે જે છેલ્લામાં છેલ્લે ૩૧ ઑગસ્ટ ૨૦૨૦ને સોમવાર સધીમાં કરવાનો રહેશે જેથી તેમના શેર IEPF સત્તામંડળના ડીમેટ એકાઉન્ટમાં ટાન્સફર થતા ટાળી શકાય. આ ઉપરાંત. જે શેરધારકોના ઇમેઇલ એડેસ કંપની/રજિસ્ટાર અને ટાન્સફર એજન્ટ પાસે ઉપલબ્ધ હોય તેમને આ સંદર્ભે ઇમેઇલ દ્વારા પણ સંદેશાવ્યવહાર કરવામાં આવશે.

IEPF કાયદાના નિયમ ૬ ના સંદર્ભમાં, જેમના શેર IEPF સત્તામંડળના ડીમેટ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થવા પાત્ર છે તેવા શેરધારક(શેરધારકો)ના નામ(નામો) અને તેમના ફોલિયો . નંબર/ડીપી આઇડી- ક્લાયન્ટ આઇડીની વિગતો સાથેનું નિવેદન અમારી વેબસાઇટ www.adffoods.com પર માહિતી અને શેરધારક(શેરધારકો) દ્વારા જરૂરી પગલાં લેવા માટે ઉપલબ્ધ છે.

જો આવા શેરના સંદર્ભમાં શેરધારકો તરફથી ૩૧ ઑગસ્ટ ૨૦૨૦ને સોમવાર સુધીમાં કોઇ માન્ય દાવો પ્રાપ્ત નહીં થાય તો, કથિત ઇક્વિટી શેર IEPF કાયદા અંતર્ગત હાથ ધરવામાં આવેલા પ્રક્રિયા અનુસાર IEPF સત્તામંડળના ડીમેટ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવશે. આ સંબંધે, કૃપા કરીને નોંધી લેશો કેઃ

i. ફ્રિઝિકલ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય તેમના માટેઃ નવા શેર સર્ટિફિકેટ(સર્ટિફિકેટ્સ) ઇશ્યુ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ કોઇપણ આગળ નોટિસ આપ્યા વગર IEPF સત્તામંડળના ડીમેટ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. વધુમાં, આવા નવા શેર સર્ટિફિકેટ(સર્ટિફિકેટ્સ) કરવાથી, મૂળ શેર સર્ટિફિકેટ(સર્ટિફિકે આપોઆપ દરબાતેલ ગણાશે અને તેને બેડ ડિલિવરી તરીકે સ્વીકારી લેવામાં આવશે.

ii.ઇલેક્ટોનિક સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય તેમના માટેઃ કોઇપણ આગળની નોટિસ વગર ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ(પાર્ટિસિપન્ટ્સ)ની મદદથી શેર સીધા જ IEPF સત્તામંડળના ડીમેટ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવશે.

IEPF નિયમો પ્રમાણે IEPFમાં ટાન્સફરકરાયેલા શેર્સ અનેદાવો નહીં કરાયેલા ડિવિડન્ડ સંદર્ભમાં કંપની સામેકોઈપણદાવા ટકી શકશે નહીં તેની નોંધ લેવી રહી. IEPF ઓથોરિટીના ડીમેટ ખાતામાં ટાન્સફરથયા બાદ, મજકર શેરધારકો સદર ઈક્વિટી શેર્સ અનેડિવિડન્ડ(સ) માટે IEPF ઓથોરિટીને ઓનલાઈન અરજીકરીનેદાવોકરી શકશે , આ માટેની વિગતો , www.iepf.gov.in પર ઉપલબ્ધ છે.

કોઇપણ પૂછપરછ/ સ્પષ્ટતા માટે, સંબંધિત શેરધારક ફોલિયો નંબર/ડીપી આઇડી-ક્લાયન્ટ ઓઇડી સાથે કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ્સ- મેસર્સ લિંક ઇનટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો સંપર્ક કરી શકે છે જેમની ઓફિસ લિંક ઇનટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, સી-૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક, એલ.બી.એસ. માર્ગ, વિક્રોલી (પશ્ચિમ). મુંબઇ - ૪૦૦૦૮૩ ખાતે આવેલી છે અને ટેલિફોન નંબરઃ ૦૨૨૪૯૧૮૬૨૭૦, ઇમેઇલ આઇડી: iepf.shares@linkintime.co.in.

> **એડીએફ ફૂડસ લિમિટેડ** માટે સહી/-

સ્થળઃ મુંબઈ શલાકા ઓવલેકર કંપની સેક્રેટરી તારીખઃ ૨૭ મે, ૨૦૨૦

KIRLOSKAR PNEUMATIC CO. LTD.

A Kirloskar Group Company Registered Office:

Hadapsar Industrial Estate, Pune - 411013 CIN: L29120PN1974PLC110307



Enriching Lives

NOTICE

This Notice is published pursuant to the provisions of Investo Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("The Rules") and amendments thereof.

The Rules, inter alia, contain provisions for transfer of all shares n respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years in the name of Investor Education and Protection Fund Authority Account

The required communication in this behalf will be sent to the shareholders (who have not claimed their dividend for a period of seven consecutive years from the financial year 2012-2013 and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority under the said Rules) at the earliest possible under the current situation. The complete details of the concerned shareholders whose dividends are unclaimed for seven consecutive years and whose shares are due for transfer to IEPF are uploaded on the Company's website

Notice is given to all such shareholders to make an application to the Company / Registrar with a request duly signed by all holders with proper identification proofs for claiming the unclaimed dividend, so that the shares are not transferred to the IEPF Authority. It may please be noted that if no reply is received by the Company / Registrar, till August 26, 2020, the Company will be compelled to transfer the shares to the IEPF Authority without any further notice as per the procedure set out in the said Rules. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF

pursuant to the said Rules. The shareholders may note that in the event of transfer of shares and the unclaimed dividends to IEPF, concerned shareholder(s) are entitled to claim the same from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same, duly signed to the company at it's Registered Office along with requisite documents enumerated in Form IEPF-5 within

prescribed time. For further information / clarification / assistance, concerned shareholders may reach out to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company and / or the Company at below

LINK INTIME INDIA PVT. LTD. Company Limited

Akshay Complex, Block No. 202, 2nd Floor, Near Ganesh Temple, Off. Dhole Patil Road,

PNEUMATIC COMPANY LIMITED Pune 411 013. Oil. Difole Palii Road, Pune 411001. Tel.: +91 (020) 26161629 / 26160084 Fax : +91 (020) 26163503 E-mall: iepf.shares@linkintime.co.in Tel.: 020-26727000, Fax: 020-26870297, Email: sec@kpcl.net

For KIRLOSKAR PNEUMATIC COMPANY LIMITED

Place: Pune Date : May 26, 2020

Jitendra Shah Company Secretary

KIRLOSKAR

• Tel.No.: +91 20 26727000 • Fax: +91 20 26870297 • E-mail : sec@kpcl.net • Website : www.kirloskarkpcl.com "Mark bearing word 'Kirloskar' in any form as a suffix or prefix is owned by Kirloskar Proprietary Ltd. and Kirloskar Pneumatic Company Ltd. is the Permitted User"

પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા

કોરોના લોકડાઉન દરમ્યાન કાંકરિયા (અમદાવાદ) અને કટક વચ્ચે વધ્ એક ટાઇમટેબલ મુજબ પાર્સલ સ્પેશચલ ટ્રેન દોડાવાશે

દેશ અને પ્રજા સમક્ષની વચનબદ્ધતા પરિપૂર્ણ કરવા સંદર્ભે પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા લોકડાઉન દરમ્યાન દેશભરમાં આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનો પૂરવઠો પૂરો પાડવામાં કોઇ કચાશ રાખવામાં આવી નથી. આજ રીતે વધુ એક ટાઇમ ટેબલ નિયત થયા મુજબેપાર્સલ સ્પેશ્યલ ટ્રેન **કાંકરિયા** અને કટક વચ્ચે દોડાવાશે. આ ટ્રેનની વિગતો નીચે મુજબ છે:

કાંકરિયા –કટક–કાંકરિયા

કામકાજના દિવસો : કાંકરિયા (અમદાવાદ)થી ૨૭/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ ટ્રેન નં. ૦૦૯૪૧ (કાંકરિયા–કટક) અને ક્ટક થી ૩૦/૦૫/૨૦૨૦, ટ્રેન નં. ૦૦૯૪૨ (કટક-કાંકરિયા).

ટ્રેન નંબર ૦૦૯૪૧					દાનલ		
			સ્ટેશનો		ट्रेन नंબર ००૯४		
આગમન	ઉપકશે				આગમન	ઉપકશે	
	18.30		કાંકરિયા 🛕		03.15		
19.35	19.45		આણંદ 🕺	1	02.00	02.10	
00.30	00.40		રતલામ		21.10	21.20	
02.20	02.30		ઉ\$ેવ		19.30	19.40	
05.15	05.20		સંત હિરદારામ નગર		16.40	16.45	
07.40	07.50		બિના જંકશન		14.10	14.20	
11.50	12.00		કટની મુરવારા (કેએમઝેડ)		10.00	10.10	
16.30	16.40		બિલાસપુર જંકશન		05.20	05.30	
19.50	20.00		ઝારસુગુડા રોડ		01.00	01.15	
20.40	20.50		સંબલપુર સિટી		00.10	00.20	
23.20	23.30		તાલચેર રોડ		21.30	21.40	
02.30		1	કડક		-	19.30	

નોંધ:૧) પાર્સલ માત્ર મંજુર કરેલ રોકાણ ખાતે જ લોડ/અનલોડ થશે. ૨) આ ટ્રેનો દ્વારા કોઇપણ મુસાફરને મુસાફરીની મંજ્રી નથી.. ૩)આ ટ્રેનો સિક્ચોરીટી અધિકારીઓથી સર્જ઼ ૨હેશે. ૪) ટ્રેનનો મહત્વનો લોડ ૨૨ વીપીએસ + ૧ એસએલઆ૨ ૨હેશે.

પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા બુકિંગ પાર્સલની કોઇપણ સહાય માટે સંપર્ક કરો: ૨૪ x૭ હેલ્પલાઇન મોબાઇલ નં. : +૯૧ ૯૦૦૪૪૯૦૯૮૨



અમને લાઇક કરોઃ 🚰 facebook.com/WesternRly 🔹 અમને ફોલો કરોઃ 💟 twitter.com/WesternRly

- Excess Demat Shares or unaccepted Demat Shares, if any, tendered by the Eligible Shareholder would be returned to them by the Clearing Corporation directly to the respective Eligible Shareholder's DP account. Any excess Physical Shares pursuant to proportionate acceptance/ rejection will be returned back to the concerned Eligible Shareholders directly by the Registrar to the Buyback. The Company is authorized to split the share certificate and issue new consolidated share certificate for the unaccepted Physical Shares, in case the Physical Shares accepted by the Company are less than the Physical Shares tendered in the Buyback.
- The Company Broker would also issue a contract note to the Company for the Equity Shares accepted under the Buyback.
- In case of certain shareholders viz., NRIs, non-residents etc. (where there are specific regulatory requirements pertaining to funds payout including those prescribed by the RBI) who do not opt to settle through custodians, the funds payout would be given to their respective Shareholder Broker's settlement accounts for releasing the same to such shareholder's account.
- Eligible Shareholders who intend to participate in the Buyback should consult their respective Shareholder Broker for payment to them of any cost, charges and expenses (including brokerage) that may be levied by the Shareholder Broker upon the selling Shareholders for tendering Equity Shares in the Buyback (secondary market transaction). The Company accepts no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and
- expenses (including brokerage) incurred solely by the selling shareholders. The Equity Shares bought will be extinguished in the manner and following the procedure prescribed in the SEBI

Buyback Regulations. 11. RECORD DATE AND SHAREHOLDER ENTITLEMENT

(ii) General category for all other shareholders.

- As required under the SEBI Buyback Regulations, the Company has fixed June 10, 2020 as the Record Date for the purpose of determining the entitlement and the names of the shareholders of the Equity Shares who are eligible to participate in the Buyback.
- As per the SEBI Buyback Regulations and such other circulars or notifications, as may be applicable, in due course, each shareholder as on the Record Date will receive a Letter of Offer along with a Tender Form (including Form SH-4 as applicable), indicating the entitlement of the shareholder for participating in the Buyback.
- The Equity Shares to be bought back as a part of the Buyback is divided in two categories: (i) Reserved category for small shareholders (as defined in Regulation 2(i)(n) of the SEBI Buyback Regulations, a "small shareholder" is a shareholder who holds Equity Shares having market value, on the basis of closing price on stock exchanges in which the highest trading volume in respect of such Equity Shares as on Record Date, is not more than INR 2,00,000/- (Indian Rupees Two Lakh Only); and
- In accordance with the proviso to Regulation 6 of the SEBI Buyback Regulations, 15% (fifteen percent) of the $number of Equity \, Shares \, which \, the \, Company \, proposes \, to \, buyback \, or \, number \, of \, Equity \, Shares \, entitled \, as \, per \, the \, company \, proposes \, to \, buyback \, or \, number \, of \, Equity \, Shares \, entitled \, as \, per \, the \, company \, proposes \, to \, buyback \, or \, number \, of \, Equity \, Shares \, entitled \, as \, per \, the \, company \, proposes \, to \, buyback \, or \, number \, of \, Equity \, Shares \, entitled \, as \, per \, the \, company \, proposes \, to \, buyback \, or \, number \, of \, Equity \, Shares \, entitled \, as \, per \, the \, company \, proposes \, to \, buyback \, or \, number \, of \, Equity \, Shares \, entitled \, as \, per \, the \, company \, proposes \, to \, buyback \, or \, number \, of \, Equity \, Shares \, entitled \, as \, per \, the \, company \, proposes \, to \, buyback \, or \, number \, of \, Equity \, Shares \, entitled \, as \, per \, the \, company \, proposes \, to \, buyback \, or \, number \, of \, Equity \, Shares \, entitled \, as \, per \, the \, company \, proposes \, to \, buyback \, or \, number \, of \, Equity \, Shares \, entitled \, as \, per \, the \, company \, proposes \, to \, buyback \, or \, number \, or \,$ shareholding of small shareholders as on the Record Date, whichever is higher, shall be reserved for the small shareholders as part of this Buyback. The Company believes that this reservation for small shareholders would benefit a large number of public shareholders, who would get classified as "small shareholder"
- Based on the shareholding on the Record Date, the Company will determine the entitlement of each shareholder including small shareholders to tender their shares in the Buyback. This entitlement for each shareholder will be calculated based on the number of Equity Shares held by the respective shareholder as on the Record Date and
- the ratio of Buyback applicable in the category to which such shareholder belongs. In order to ensure that the same Eligible Shareholder with multiple demat accounts/ folios does not receive a higher entitlement under the Small Shareholder category, the Equity Shares held by such Eligible Shareholder

- with a common PAN shall be clubbed together for determining the category (Small Shareholder or General Category) and their entitlement under the Buyback. In case of joint shareholding, the Equity Shares held in cases where the sequence of the PANs of the joint shareholders is identical shall be clubbed together. In case of Eligible Shareholders holding physical shares, where the sequence of PANs is identical and where the PANs of all joint shareholders are not available, the Registrar to the Buyback will check the sequence of the names of the joint holders and club together the Equity Shares held in such cases where the sequence of the PANs and name of joint shareholders are identical. The shareholding of institutional investors like mutual funds, insurance companies, foreign institutional investors/ foreign portfolio investors etc. with common PAN are not proposed to be clubbed together for determining their entitlement and will be considered separately, where these Equity Shares are held for different schemes/ sub-accounts and have a different demat account nomenclature based or information prepared by the Registrar to the Buyback as per the shareholder records received from the Depositories. Further, the Equity Shares held under the category of "clearing members" or "corporate body margin account" or "corporate body - broker" as per the beneficial position data as on Record Date with common PAN are not proposed to be clubbed together for determining their entitlement and will be considered separately,
- where these Equity Shares are assumed to be held on behalf of clients. Shareholders' participation in Buyback will be voluntary. Shareholders holding Equity Shares of the Company may also accept a part of their entitlement. Shareholders holding Equity Shares of the Company also have the option of tendering additional shares (over and above their entitlement) and participate in the shortfall created due to non-participation of some other shareholders, if any. If the Buyback entitlement for any shareholder is not a round number, then the fractional entitlement shall be ignored for computation of entitlement to tender Equity
- The maximum tender under the Buyback by any shareholder cannot exceed the number of Equity Shares held by
- The Buyback from shareholders who are persons resident outside India, including the foreign portfolio investors, erstwhile overseas corporate bodies and non-resident Indian, etc., shall be subject to such approvals, if any and to the extent required from the concerned authorities including approvals from the Reserve Bank of India under Foreign Exchange Management Act, 1999, as amended, and the rules and regulations framed there under, and
- such approvals shall be required to be taken by such non-resident shareholders. Detailed instructions for participation in the Buyback (tender of Equity Shares in the Buyback) as well as the relevant time table will be included in the Letter of Offer which will be sent in due course to the shareholders holding Equity Shares of the Company as on the Record Date.

12. COMPLIANCE OFFICER

Shares in the Buyback.

The Company has appointed Ms. Seshanuradha Chava as the compliance officer for the purpose of the Buyback ("Compliance Officer"). Investors may contact the Compliance Officer for any clarification or to address their grievances, if any, on all working days except Saturday, Sunday and public holidays during office hours i.e. 10:00 a.m.

Tel: +91 40 4009 9999; Fax: +91 40 2312 2999

E-mail: investorhelp@tanla.com 13. INVESTOR SERVICE CENTRE AND REGISTRAR TO THE BUYBACK In case of any query, the shareholders may also contact KFin Technologies Private Limited, the Registrar and Share

Ms. Seshanuradha Chava Vice President - Legal & Secretarial Tanla Technology Centre, Hitech City Road, Madhapur, Hyderabad – 500 081 Uday Kumar Reddy Dasari

Chairman and Managing Director DIN: 00003382 Transfer Agent of the Company, appointed as the Investor Service Centre for the purposes of the Buyback, on any day | Place: Hyderabad

 $except \, Saturday \, and \, Sunday \, and \, public \, holiday \, between \, 9:30 \, a.m. \, to \, 5:30 \, p.m. \, at \, the \, following \, address: \, and \, between \, b$

KFINTECH

Website: www.kfintech.com

KFin Technologies Private Limited (formerly known as Karvy Fintech Private Limited)* Selenium, Tower B, Plot No. - 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad Rangareddi

TG 500032 India Tel: +91 40 6716 2222; Fax: +91 40 2343 1551 Contact Person: M Murali Krishna Email: tanla.buyback@kfintech.com;

Investor Grievance E-mail: einward.ris@kfintech.com SEBI Registration No.: INR000000221

Validity Period: Permanent (unless suspended or cancelled by SEBI) CIN: U72400TG2017PTC117649

*The name has been changed from 'Karvy Fintech Private Limited' to 'KFin Technologies Private Limited' with effect from December 5, 2019. MANAGER TO THE BUYBACK

☐ HDFC BANK

We understand your world **HDFC Bank Limited**

Investment Banking Group

Unit No. 401 & 402, 4th Floor, Tower B, Peninsula Business Park, Lower Parel Mumbai 400 013 Tel: +91 22 3395 8233, Fax: +91 22 3078 8584 E-mail: tsl.buvback@hdfcbank.com:

Website: www.hdfcbank.com Investor Grievance E-mail: investor.redressal@hdfcbank.com

SEBI Registration No.: INM000011252 Validity Period: Permanent (unless suspended or cancelled by SEBI)

Contact Person: Harsh Thakkar / Ravi Sharma CIN: L65920MH1994PLC080618 15. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

Sd/-

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for all the information contained in this Public Announcement and for the information contained in all other advertisements, circulars brochures, publicity materials etc., which may be issued in relation to the Buyback, and confirms that the information in such documents contain and will contain true, factual and material information and does not and will not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Tanla Solutions Limited

Sd/-AG Ravindranath Reddy Director

Sd/-Seshanuradha Chava Vice President - Legal & Secretarial Membership No. - A15519

बिहार मैट्रिक परीक्षा परिणाम घोषित, 80.59 फीसद परीक्षार्थी उत्तीर्ण

बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद

किशोर ने बताया कि पूरे देश में

कोरोना पूर्णबंदी के कारण देश के

अन्य परीक्षा बोर्डों द्वारा या तो

नहीं किया जा सका है या जिन

बोर्डों द्वारा अभी तक परीक्षाओं का

आयोजन कर भी लिया गया है,

उनके द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं का

मूल्यांकन अभी तक पूरा नहीं किया

गया है जिससे अभी तक देश के

किसी भी परीक्षा बोर्ड द्वारा मैटिक

एवं इंटर (बारहवीं) के परीक्षाफल

का प्रकाशन नहीं किया गया है।

पटना, 26 मई (भाषा)।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने मंगलवार को मैटिक परीक्षा 2020 के नतीजे घोषित किए जिसमें इस साल 80.59 फीसद परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव परीक्षा का आयोजन अभी तक पूर्ण आरके महाजन और बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर की मौजूदगी में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित किए।

बीएसईबी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रोहतास जिले के तेनौज स्थित जनता हाई स्कूल के छात्र हिमांश राज ने 500 में से 481 (96.20 फीसद) अंक पाकर इस परीक्षा में टॉप किया है। इस परीक्षा में हासिल अंकों के अनुसार 41

परीक्षार्थियों ने शीर्ष दस में जगह बनाई है, जिनमें 10 छात्राएं भी हैं।

किशोर ने बताया कि पूरे देश में कोरोना पूर्णबंदी के कारण देश के अन्य परीक्षा बोर्डों द्वारा या तो परीक्षा का आयोजन अभी तक पूर्ण नहीं किया जा सका है या जिन बोर्डों द्वारा अभी तक परीक्षाओं का आयोजन कर भी लिया गया है, उनके द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन अभी तक पूरा नहीं किया गया है जिससे अभी तक देश के किसी भी परीक्षा बोर्ड द्वारा मैट्रिक एवं इंटर (बारहवीं) के परीक्षाफल का प्रकाशन नहीं किया गया है। दूसरी ओर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2020 का परीक्षाफल आज प्रकाशित किया जा रहा है।

विदित हो कि समिति द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2020 का परीक्षाफल भी देश में सबसे पहले 24 मार्च को जारी किया गया था। किशोर ने बताया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2020 में कुल 14,94,071 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें 7,29,213 छात्र तथा 7,64,858 छात्राएं थीं। उन्होंने बताया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2020 में कुल 4,03,392 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से, 5,24,217 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से तथा 2,75,402 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2020 में कूल 12,04,030 विद्यार्थी (छात्र– ६,13,485 एवं छात्राएं– 5,90,545) उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कुल फीसद 80.59 है। इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए 14,94,071 विद्यार्थियों में मात्र चार विद्यार्थियों का परिणाम लंबित है।

किशोर ने बताया कि कुल 80.59 फीसद विद्यार्थियों ने इस वर्ष कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण को है जबकि वर्ष 2019 में पास फीसद 80.73 था और वर्ष 2018 में यह 68.89 फीसद था।

महाराष्ट्र के अकोला में पिता-पुत्र की हत्या, तीन गिरफ्तार

अकोला, २६ मई (भाषा)।

महाराष्ट्र के अकोला जिले में कुछ लोगों ने पुराने विवाद के चलते 58 वर्षीय एक शख्स और उसके बेटे की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इस संबंध में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

स्थानीय अपराध शाखा के प्रमुख शैलेश सपकल ने बताया कि यह घटना खरप गांव में सोमवार को रात करीब 11 बजे तब हुई जब सनातन तुकाराम खीरसागर और उसका बेटा विजय सनातन खीरसागर (30) गांव के मुख्य चौराहे पर खड़े थे। उसी वक्त कुछ लोगों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हमलावरों की मृतकों से कोई पुरानी दुश्मनी थी।

दोनों के शव लंबे समय तक सड़क पर पड़े रहे जिसके बाद एक स्थानीय निवासी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सिविल लाइंस पुलिस थाने और स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शैलेश सपकल ने बताया कि हत्या के आरोप में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

मुंबई: अस्पताल में कर्मचारी की मौत, सहकामया ने किया विरोध प्रदर्शन

मुंबई, 26 मई (भाषा)।

मुंबई के केईएम अस्पताल में तैनात एक कर्मचारी की मौत के बाद मंगलवार को संस्थान के अन्य कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी के बीच नागरिक निकायों पर उनकी हालत के प्रति उदासीनता बरतने का आरोप लगाया गया।

कर्मचारी संघ के एक अधिकारी ने आरोप लगाया कि मृतक को शरीर में दर्द की शिकायत के बावजूद छुट्टी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा, 'वह पिछले दो दिनों से शरीर में दर्द और कमजोरी की शिकायत कर रहा था लेकिन उसकी छुट्टी मंजुर नहीं की गई।' अधिकारी ने दावा किया कि उस कर्मचारी की कोरोना जांच नहीं की गई और शायद उसका इस बीमारी के लिए कोई इलाज भी नहीं किया गया।

हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन-एजीथ्रोमाइसिन का साथ में सेवन घातक

नई दिल्ली, 26 मई (भाषा)।

दिनांक: 27/05/2020

समिति के समक्ष सम्पन्न किया जायेगा

इच्छक व्यक्ति अवलोकित कर सकते हैं।

की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जा सकता है।

जाएगा जिस हेतु परिषद की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली—67 पूरमाष: 011—41596500, कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

दिनांक 24-मई-2020 को प्रकाशित ई-नीलामी बिक्री सूचना के लिए शुद्धिपत्र

यह इस अखबार में 24-मई-2020 को प्रकाशित 22-मई-2019 दिनांकित ई-नीलामी बिक्री सुचना में क्रम सं. 25

में उल्लिखित श्री. प्रशांत खट्टर और स्श्री नुप्र नैन खट्टर (ऋण खाता सं. 586608561) की प्रॉपर्टी के संदर्भ में

है। कथित बिक्री सूचना में प्रॉपर्टी के एरिया का उल्लेख न करने की चूक हो गई है। प्रॉपर्टी का विवरण इस तरह

पढ़ा जाए "फ्लैट नं. । 2-503, कुल माप 2430 वर्ग फुट और इसके तहत 5वीं मंजिल, टॉवर नं. 2, जेपी ग्रीन्स

इम्पीरियल कोर्ट, सेक्टर 128, नोएडा, उत्तर प्रदेश के 3 बेड रूम ड्राइंग / डाइनिंग रूम, किचेन, शौचालय युक्त

नौकर का कमरा और 4 टायलेट और वर्तमान एवं भावी कंस्ट्रक्शन दोनों शामिल होंगे।" ई-नीलामी बिक्री सूचना में

कृपया ध्यान रखें कि 24–मई–2020 को प्रकाशित 22–मई–2020 दिनांकित ई–नीलामी बिक्री सूचना के अन्य

उल्लिखित प्रॉपर्टी का आरक्षित मूल्य **रु.1,07,00,000 (एक करोड़ सात लाख रुपये मात्र)** है।

डाफ्ट के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।

प्रक्रिया के दौरान आधार की मूल प्रति अपने पास रखना आवश्यक होगा।

कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्रस्तावित हाइडोक्सिक्लोरोक्वीन और एजीथ्रोमाइसिन का साथ में सेवन घातक हो सकता है और यह मिश्रण ह्रदय तंत्र पर गंभीर असर डाल सकता है। एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है।

अमेरिका में वांडरबिल्ट यूनिवर्सिटी और स्टेनफोर्ड युनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) डेटाबेस का अवलोकन, पूर्वव्यापी आकलन किया जिसमें दवाओं के प्रतिकुल प्रभाव संबंधी 2.1 करोड़ केस रिपोर्ट थी। इन रिपोर्टी में 14 नवंबर 1967 और एक मार्च 2020 के बीच 130 देशों की इलाज की रिपोर्टे शामिल थीं।

अध्ययन में जिन मरीजों ने हाइडोक्सिक्लोरोक्वीन.

OSBI

एनीटाइम चैनल्स विभाग, एयर इंडिया बिल्डिंग, कॉरपोरेट सेन्टर, नरीमन पॉइन्ट, मुंबई - 400 021. ईमेल: dgm.atmins@sbi.co.in

शुद्धिपत्र-4

कृपया टोटल आउटसोर्स्ड मॉडल (टीओएम) फेस XIV (वर्ष 2020) के अंतर्गत 10,000

एटीएम्स को संस्थापित करने के लिए हमारा शुद्धिपत्र (RFP No. SBI/AC/2019-20/006

दिनांक 17.03.2020) देखें. इस बारे में वीडियो/ऑडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिए बोली-पूर्व बैठक

29.05.2020 को निर्धारित की गई है. इसकी विस्तृत जानकारी बँक की वेबसाइट

https://bank.sbi या https://sbi.co.in पर लिंक "प्रोक्योरमेन्ट न्यूज" पर उपलब्ध है.

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक. निर्माण इकाई- इलाहाबाद.

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 50/6, अलोपीबाग, प्रयागराज-211006

नीलामी आमंत्रण सचना

14.02.2020 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज के पत्रांक मु.चि.अ./ ध्वस्तीकरण/ कोटवा/ 2019-20/ 10031 दिनांक

18.02.2020 के क्रम जनपद- प्रयागराज के विकास खण्ड- बहादुरपुर के अन्तर्गत ग्राम- कोटवा के पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र के परिसर में निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण एवं ध्वस्तीकरण से प्राप्त मलबा को परिसर से बाहर निस्तारित करने हेत

पंजीकृत बोलीदाताओं से दिनांक 03.06.2020 को मध्यान्ह 12.00 बजे से नीलामी हेतु आमंत्रित की जाती है। उच्चतम धनराशि

की बोलीदाता के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जायेगी। इस नीलामी की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित नीलामी

शर्तै: 1. उक्त परिसर में ध्वस्तीकरण हेतु सभी निष्प्रयोज्य भवनों पर पूर्व से क्रास मार्क किया गया है जिसे बोली में भाग लेने

2. सभी निष्प्रयोज्य भवनों जिन्हें नीलामी के माध्यम से ध्वस्त कराया जाना है की नीलामी की बोली की न्युनतम लागत रु. 1.02

लाख है जहां से बढ़ते क्रम में बोली लगायी जायेगी तथा उच्चतम धनराशि की बोलीदाता के पक्ष में बोली स्वीकृत की जायेगी।

. उक्त नीलामी की बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता को रु. 25,000.00 की धनराशि का जमानत राशि जमा करना होगा जो

कि किसी राष्ट्रीयकत बैंक द्वारा जारी फिक्स डिपाजिट जो परियोजना प्रबंधन्क, निर्माण इकाई– इलाहाबाद, प्रयागराज के नाम

बन्धक होगा, जमा करके दिनांक 02.06.2020 को सायं 4.00 बजे तक पंजीकरण कराना होगा अन्यथा की स्थिति में नीलामी

जिस बोलीदाता के पक्ष में नीलामी स्वीकृत की जायेगी उसे आगामी तीन दिन के अन्दर नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि बैंक

जिस बोलीदाता के पक्ष में बोली स्वीकत नहीं होगी उनकी पंजीकरण की धनराशि का एफ.डी.आर. नीलामी के अगले दिन

नीलामी की उच्चतम धनराशि से अतिरिक्त यदि कोई कर आदि देय होगा तो नीलामी प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा किया

. बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को पंजीकरण के समय आधार कार्ड की हस्ताक्षरित प्रति जमा करनी होगी तथा नीलामी

नीलामी की बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति के साथ अन्य किसी दसरे व्यक्ति का प्रवेश मान्य नहीं होगा।

. अधोहस्ताक्षरी को उक्त/ नीलामी सम्पूर्ण प्रक्रिया किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

शासनादेश सं. 15/ 2020/ 1646/ पांच-6-2019-19 (बजट)/ 18 टी.सी.-1/ चिकित्सा अनुभाग-6, लखनऊ, दिनांक

उप महाप्रबंधक

एटीएम–आई एड एस)

भवदीय

परियोजना प्रबंधक

अध्ययन का निष्कर्ष

अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन और एजीथ्रोमाइसिन अकेले या साथ में लेना प्रस्तावित किया गया है।

उन्होंने बताया कि मुख्यतः एजीथ्रोमाइसिन लेकिन हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन के सेवन से भी ह्रदय की गति में बदलाव जैसे घातक प्रभाव देखने को मिले।

एजीथ्रोमाइसिन ली या दोनों दवाओं का सेवन किया उनके दिल पर दवाओं के प्रतिकृल प्रभाव का अध्ययन किया।

अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन और एजीथ्रोमाइसिन अकेले या साथ में लेना प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यतः एजीथ्रोमाइसिन लेकिन हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन के सेवन से भी ह्रदय की गित में बदलाव जैसे घातक प्रभाव देखने को मिले। वैज्ञानिकों ने बताया कि दोनों के साथ में सेवन से और भयंकर प्रभाव देखने को मिले।

अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन का कई महीनों तक सेवन करने से जानलेवा दिल का दौरा पडने जैसा असर भी देखा गया। यह अध्ययन 'सर्कलेशन' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

इंदौर में टीवी अभिनेत्री ने फांसी लगाई

इंदौर, 26 मई (भाषा)। मध्यप्रदेश के इंदौर में 25 वर्षीय टीवी एक अभिनेत्री ने मंगलवार को कथित तौर पर अवसाद के चलते फांसी लगा कर जान दे दी। हीरानगर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि टीवी अभिनेत्री प्रेक्षा मेहता (25) ने अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगा ली।

उन्होंने बताया, शुरूआती जांच में हमें लगता है कि अभिनेत्री अवसाद की शिकार थी।

ADF Foods Limited

CIN: L15400GJ1990PLC014265

Regd. Office: 83/86 GIDC Industrial Estate, Nadiad 387 001, Gujarat Tel.: 0268-2551381/2; Fax: 0268-2565068;

Email id: co_secretary@adf-foods.com; Website: www.adf-foods.com

NOTICE TRANSFER OF THE EQUITY SHARES TO

INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

This Notice is hereby given to the Shareholders of the Company pursuant to Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017 ("IEPF Rules") which are effective 28" February, 2017.

In terms of the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the IEPF Rules, the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven (7) consecutive years or more are liable to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

In view of the outbreak of COVID-19 pandemic in India, the Company is unable to send individual notices to those shareholders who have not claimed their dividend for seven (7) consecutive years or more in term of IEPF rules. The Company shall dispatch notices to aforesaid shareholders at their registered address once the normalcy resumes, inter-alia, providing them the details of their unclaimed dividend and giving them an opportunity to claim the said unclaimed dividend latest by Monday, 31" August, 2020, to avoid transfer of their shares to the Demat Account of the IEPF Authority. Further, an email communication in this regard is being sent to those Shareholders whose e-mail addresses are available with the Company/Registrar and Transfer Agents.

In terms of Rule 6 of the IEPF Rules, a statement containing details of the name(s) of the Shareholder(s) and their Folio Number/ DP ID-Client ID whose shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority is available on our website www.adf-foods.com for information and necessary action by the Shareholder(s).

In case no valid claim in respect of such equity shares is received from the Shareholders by Monday, 31st August, 2020, the said equity shares shall be transferred to the Demat Account of IEPF Authority as per the procedure stipulated under the IEPF Rules. In this connection, please

. For Shares held in physical form: New Share Certificate(s) will be issued and transferred subsequently to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice. Further, upon issue of such new Share Certificate(s), the original Share Certificate(s) which are registered in your name will stand automatically cancelled and deemed to be bad delivery.

For Shares held in electronic form: The shares will be directly transferred to the Demat Account of the IEPF Authority with the help of Depository Participant(s) without any further notice.

It may be noted that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and shares transferred to IEPF pursuant to the IEPF Rules. Upon transfer to the Demat Account of the IEPF Authority, the Shareholders can claim the equity shares along with the dividend(s) from the IEPF Authority by making an online application, for which the details are available at www.iepf.gov.in.

In case of any queries/ clarifications, the concerned Shareholders may contact the Company's Registrar & Transfer Agents - M/s. Link Intime India Private Limited quoting the Folio Number/DPID - Client ID at Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400 083, Tel. No.: 022 4918 6270, e-mail ID: iepf.shares@linkintime.co.in.

For ADF Foods Limited

ई-नीलामी

बिक्री सूचना

Place: Mumbai

Shalaka Ovalekar Date: May 27, 2020 Company Secretary

OSBI

स्थानः नई दिल्ली

सभी तथ्य अपरिवर्तित हैं।

दिनांक: 26-मई-2020

भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-।

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

2वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-23701070, 23701097, 23701167, 23701167, 23701195, फेक्स : 23701202, ई-मेल sbi.04109@sbi.co.in परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्राधिकृत अधिकारी

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक / गिरवी / प्रभारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्यामृत — दाता (भारतीय स्टेट बँक) से — प्रतिमृत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 30.06.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी

कर्जदार (बी) / गारंटर (रॉ) (जी) / का नाम पता / पते सहित	नीलामी के अधीन आवृत्त प्रमारित प्रतिभूति का पता	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) वृद्धि राशि	मांग सूचना की तारीख एवं बकाया राशि	सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय एवं प्राधिकृत अधिकारी का नाम	ई-नीलामी की तिथि / समय 5 मिनट प्रत्येक के आसीमित स्वतः विस्तार सहित
चौक, मंगलापुरी पालम, नई दिल्ली—110045, श्री अविनाश जैन (निदेशक / गारंटर) ए —3 / 71, जनकपुरी नई दिल्ली—110058. और: बी—38, तृतीय तल, जैन चौक, मंगलापुरी, पालम, नई दिल्ली—110045, श्री नरेश चंद जैन (निदेशक / गारंटर) ए —3 / 71, जनकपुरी नई दिल्ली—110058. और: बी—38, तृतीय तल, जैन चौक, मंगलापुरी, पालम, नई दिल्ली—110045, श्री अमित जैन (गारंटर) ए —3 / 71, जनकपुरी नई दिल्ली — 110058, श्रीमती अंजू	पास और वैश गर्ल्स कॉलेज हास्टल बिल्डिंग, झज्जर रोड के पास, रोहतक में स्थित, क्षेत्रफल 813 वर्ग गज लगमग, यह सम्पत्ति कैम्फलो पॉवर प्रा. लि. के नाम पर है। चौहद्दी: पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – गली, उत्तर में –	₹ 20.70 लाख ₹ 1.00 लाख	SBI दिनांक 04.10.2017 को, IDBI दिनांक 17.10.2017 को, BOI दिनांक 10.10.2017 को, BOB दिनांक 16.09.2017 को, Axis Bank दिनांक 15-01-2018 को और OBC दिनांक 14.03.2018 को SBI क. 223,81,23,684.46 दिनांक 03.10.2017 तक IDBI क. 106,47,58,416/-	10-06-2020 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 4.00 बजे तक प्राधिकृत अधिकारीः श्री सुनील मोहिन्दरू	30-06-2020 दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे तक
जैन (निदेशक /गारंटर), एच-34/133, सैक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली – 110085 श्री विकास जैन (गारंटर) 1266/17, वार्ड नं. 17, अग्रसैन स्ट्रीट, रेलवे रोड, गली दुराद वाली, रोहतक – 124001, हरियाणा, श्री पंकज जैन प्रोप. मैसर्स वृंदा ट्रेडिंग कंपनी (गारंटर) 1265—1266/17, वार्ड नं. 17, अग्रसरैन स्ट्रीट, रेलवे रोड, रोहतक – 124001, हरियाणा, श्रीमती स्नेहा लता जैन (गारंटर) 1266/17, वार्ड नं. 17, अग्रसैन स्ट्रीट, रेलवे रोड, रोहतक – 124001, हरियाणा, मैसर्स कैमफ्लो पॉवर प्रा. लि. (कॉर्पोरेट गारंटर), अग्रसैन स्ट्रीट, रेलवे रोड, रोहतक–124001, हरियाणा और पंजीकृत कार्यालयः आरजेड – 226, कैलाशपुरी, पालम, नई दिल्ली – 110045	सोनीपत, हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 2600 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री नरेश चंद जैन के नाम पर है। चौहद्दी: पूरब में — रोड, पश्चिम में — अन्य की खाली भूमि, उत्तर में — एराईज फैक्ट्री का शेष हिस्सा,	₹ 352.00 लाख ₹ 35.20 लाख	दिनांक 01.10.2017 तक BOI रू. 99,18,46,227/- दिनांक 10.10.2017 तक, BOB रू. 62,88,17,582.81/- दिनांक 31.07.2017 तक, Axis Bank रू 38,26,38,382.39/- दिनांक 30.06.2017 तक और OBC रू.37,93,19,172.58/- दिनांक 28.02.2018 तक कुल रू. 568,55,03,465.24/-	मो. नं. 7738028686	30-06-2020 दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे तक
 मैसर्स एलाइड एनर्जी सिस्टम्स प्रा. लि., जिसका पंजीकृत कार्यालयः डीएसएफ 103, डीएफउल टॉवर, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली—110015 <u>औरः</u> डीएसएम—212, डीएलएफ टॉवर, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली—110015 औरः डीएसएम—241, डीएलएफ टॉवर, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली—110015 <u>औरः</u> मकान—32, चतुर्थं तल, विकास अपार्टमेंट, वेस्ट एन्क्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली—110034 श्री तरुण सचदेवा पुत्र स्वं. श्री संत लाल सचदेवा, सी—2/139, वेस्ट एन्क्लेव, 	ब्लॉक—सी, प्रौजेक्ट, "डिप्लोमेटिक ग्रीन" फेज— ।, सैक्टर—110ए और 111, अरबन ईस्टेट, गाँव चौउमा, गुडगाँव में स्थित, कुल क्षेत्रफल 2960 वर्ग फीट, सम्पत्ति पर	₹ 200.00 लाख ₹ 20.00 लाख ₹ 1.00 लाख	SBI रु. 17,21,30,538/- दिनांक 30-04-2019 तक	10-06-2020 पूर्वाङ 11.00 बजे से अर्पाङ 4.00 बजे तक प्राधिकृत अधिकारीः	30-06-2020 दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे तक
पीतमपुरा, सरस्वती विहार, नई दिल्ली—110034 और: एच—32, चतुर्थ तल, विकास अपार्टमेंट, वेस्ट एन्क्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली—110034 3. श्री दलजीत सिंह दुग्गल पुत्र श्री कुलवंत सिंह, बी—32, हिल ब्यू अपार्टमेंट, वसंत विहार—1, नई दिल्ली—110057, और: मकान नं. 3एफ, सरमा नगर, लुधियाना—141001, और: 293, केहर सिंह एस्टेट, वेस्ट एंड मार्ग, सैदुल्लाजाब, साकंत, नई दिल्ली 4. श्रीमती कृष्ण सचदेवा पत्नी स्वं. श्री संत लाल सचदेवा, सी—2/139, वेस्ट एन्क्लेव,	440024 में जिएस कर क्षेत्रकर 94 वर्ग	₹ 40.80 लाख ₹ 1.00 लाख		श्री मनोज शर्मा मो. नं. 9463428969 ———————————————————————————————————	30-06-2020 दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे तक
पीतमपुरा, सरस्वती विहार, नई दिल्ली—110034 5. श्रीमती शैली सचदेवा पत्ने श्री तरुण सचदेवा, सी—2/139, वेस्ट एन्क्लेव, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, नई दिल्ली—110034, <u>और</u> एच—32, चतुर्थ तल, विकास अपार्टमेंट, वेस्ट एन्क्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली—110034 6. श्री अमित कुमरा, सी—96, प्रथम तल, सेक्टर 54, सनसिटी, गुड़गांव 7. श्री अनिल कुमरा, सी—96, प्रथम तल, सेक्टर 54, सनसिटी, गुड़गांव		₹ 405.00 लाख ₹ 40.50 लाख ₹ 1.00 लाख		श्री साधु राम मो. 9871783777	30-06-2020 दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे तक
	। ॉ, पैन कार्ड, ईएमडी जमा करने				

और धरोहर राशि KTGS/NEFT के माध्यम से दिनांक 26-06-2020 अपोद्ध 4.00 बजे तक या उस से पहले जमा करें

भावी बोलीदाता धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट / आर टी जी एस / एन ई एफ टी के रुप में खाता संख्या 33108475877, "THE AUTHORISED OFFICER, SBI, SAM BRANCH-1, NEW DELHI", IFSC Code: SBIN0004109, में जमा करें यदि धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करते है तो 'भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-1, नई दिल्ली के पक्ष में जो कि नई दिल्ली में देय हो, व किसी राष्ट्रीकृत या शिडयूल बैंक में बना हो जमा करें।

ई-नीलामी हेत् नियम व शर्ते:-ई—नीलामी "जैसा है जहाँ है" तथा "जैसा है जो भी है" के आघार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी।

यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता M/S C-1 India Pvt. Ltd., हेल्पलाईन नं. 0124-4302020/21/23/24/25, श्री विनोद, मो. नं. 9813887931 एवं ई-मेल : support@bankeauctions.com) के माध्यम से वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाईन संचालित की जायेगी । ऑनलाईन नीलामी बिक्री के अन्तर्गत ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, समान्य नियम व शर्ते आदि निविदा दस्तावेज वेबपोर्टल साईट https://www.bankeauctions.com अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(यों) पर कोई प्रभार नही है। तथापि इच्छूक बोलीदाता(ओं) को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(यों) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(यों) को प्रभावित करने वाले दावों 🖊 अधिकारों

🖊 बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। इस संदर्भ में ई—नीलामी विज्ञापन, बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता / वचनबद्धता निर्मित नही करता है और न ही कोई वचनबद्धता / प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा।

प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। यह ई-नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों 🗸 शर्तों के अनुसार की जायेगी।

ई-नीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित वेबसाईटों पर प्रकाशित की गई है। 1. https://www.bankeauctions.com 2. http://www.sbi.co.in

सरफासी ऐक्ट, 2002 के अधीन बिक्री हेत् कानूनी नोटिस तिथि : 27.05.2020, स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

कॉनकॉर CONCOR नवरत्न कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली–110 020 निविदा सूचना (केवल ई—टेंडर के माध्यम से एमएमएलपी/खाट्बास में परिवहन भवन के प्रथम तल पर कस्टम अधिकारियों के लिए आराम गृहों का निर्माण" के कार्य त् एकल बोली प्रॅणाली में केवल ई–टेंडॉरेंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित हैं। बोली दस्तावेज ऑनलाइन हारा रु. 1000/- के भगतान पर वेबसाईट (www.tenderwizard.com/CCIL) से डाउनलोड किया जा सकता है। कॉन/उ.क्षे/अमि./Khatuwas/Rest-Rooms/2020 रु. 65.11 लाख (सभी सहित) स्वीकृति पत्र जारी जारी होने की तिथि के 15 दिन बाद से 04 महीने प्रमापन अवधि घरोहर जमा राशि रु. 1,30,220 / - ई-भगतान के माध्यम से रस्तावेज का मल्य रु. 1,000 / - सभी कर एवं प्रभार सहित, ई-भूगतान के माध्यम से नेविदा प्रोसेसिंग शल्क रु. 3,841 / — सभी कर एवं प्रभार सहित (अप्रतिदेय) ई—भूगतान के माध्यम से बिक्री की तिथि (ऑनलाइन) 27.05.2020 (11:00 बजें) से 16.06.2020 (17:00 बजे तक)

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

Container Corporation of India Ltd.

नेविदा जमा करने की तिथि एवं समय | 17.06.2020 को 15.00 बजे तक या उससे पहले 19.06.2020 को 15.30 बजे ठोंनकोंर बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखती है सम्पूर्ण विवरण www.concorindia.com वा eprocure.gov.in अथवा www.tenderwizard.com/CCIL प समृह महाप्रबंधक (तकनीकी) / उत्तरी क्षेत्र

टाटा केपिटल फाइनासियल सर्विसेस लिमिटेड 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055 अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सुचना

(प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत) वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 वे साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तिये की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 7666665 (मै. नवाब मोटर्स प्रा. लि.)

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह–ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाट कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभृत क्रेडीटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभृत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वार भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की 1. मै. नवाब मोटर्स प्रा. लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अतुल कपूर, सी-24, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301, साथ हीः एफ-16, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 2. मै. नवाब मोटर्स प्रा. लि., प्रतिनिधित्व द्वार उसके निदेशक/ प्राधि. हस्ताक्षरकर्ता अनुज कूपर, सी-24, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश-20130⁻ साथ ही: एफ-16, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 3. मै. नवाब मोटर्स प्रा. लि. प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक/ प्राधि. हस्ताक्षरकर्ता अनुज कपूर, प्लॉट नं. 11, ब्लॉक-ई, सेक. XI, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, गौतम बुध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 4. मै. नवाब मोटस् प्रा. लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक/ प्राधि. हस्ताक्षरकर्ता अतुल कपूर प्लॉट नं. 11, ब्लॉक-ई सेक.-XI, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, गौतम बुध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 5. अतुल कपूर, डी-26, साउथ सिटी-1, गुररुग्राम, हरियाणा-122001, 6. मै. कैप्सन्स इंजीनियर्स प्रा. लि. प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक/ प्राधि. हस्ताक्षरकर्ता अतुल कपूर, 554, पेस सिटी-2, सेक्टर-37 गुरुग्राम, हरियाणा-122001, साथ हीः प्लॉट नं. 11, ब्लॉक-ई, सेक.-XI, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, गौतम बुध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 7. मै. कैप्सन्स इंजीनियर्स प्रा. लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक/ प्राधि. हस्ताक्षरकर्ता अनुज कपुर, 554, पेस सिटी-2, सेक्टर-37, गुरुग्राम हरियाणा-122001, साथ ही: प्लॉट नं. 11, ब्लॉक-ई, सेक.-XI, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, गौतम बुध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 स्व. श्री जवाहर लाल कपूर, मृतक के सांविधिक उत्तराधिकारियों, क. अनुज कपूर, पुत्र एवं स्व. श्री जवाहर लाल कपूर के सांविधिक उत्तराधिकारी, डी-26, साउथ सिटी-1, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 तथा साथ ही निवासीः प्लॉट नं. 11, ब्लॉक-ई, सेक.-XI, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, गौतम बुध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 ख. अतुल कपूर पुत्र एवं स्व. श्री जवाहर लाल कपूर के सांविधिक उत्तराधिकारी, प्लॉट नं. 11, ब्लॉक-ई, सेक.-XI न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, गौतम बुध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 तथा साथ ही निवासी प्लॉट नं. 11, ब्लॉक-ई, सेक.-XI, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, गौतम बुध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 ग. श्रीमती आशा कपूर, पत्नी एवं स्व. श्री जवाहर लाल कपूर के सांविधिक उत्तराधिकारी, डी-26, साउथ सिटी-1, गुरुग्राम, हरियाणा तथा साथ ही निवासी: एफ-16, शंकर मार्केट कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, घ. श्रीमती आभा वासन, पुत्री तथा स्व. श्री जवाहर लाल कपू के सांविधिक उत्तराधिकारी, एच नं. एफ-16, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 8. श्रं अनुज कपूर, निदेशक, मै. नवाब मोटर्स प्रा. लि. एफ-16, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, 9. श्री अनुज कपूर, स्व. श्री जवाहर लाल कपूर के सांविधिक उत्तराधिकारी, डी-26, साउथ सिटी-1, गुरुग्राम, हरियाणा, 10. मै. नवाब ऑटो इंजीनियर्स प्रा. लि. प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, अनुज कपूर प्लॉट नं. 11, ब्लॉक-ई, सेक.-XI, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया गौतम बुध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 साथ ही: 554, पेस सिटी-2, सेक्टर-37, गुरुग्राम हरियाणा से 11 सितम्बर, 2019 को रु. 4,92,78,335/- (रुपए चार करोड़ बानवे लाख अठहत्तर हजा तीन सौ पैंतीस मात्र) की कुल राशि की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है'' एवं ''जो भी वहां है' तथा ''जो भी जैसा है'' आधार पर 18 जून, 2020 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 11 सितम्बर, 2020 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ रु. 4,92,78,335/- (रुपये चार करोड़ बानवे लाख अठहत्तर हजार तीन सौ पैंतीस मात्र) की राशि बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, ब्लॉक ई, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली-110055 में उक्त 18 जून, 2020 को 2.00 बजे अप. में ई-नीलार्म द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद निविद टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहरबंद ई-नीलामी उक्त 17 जून 2020 के 5.00 बजे अप. तक प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, वे साथ की जाएगी।

राशि का विवरण नीचे वर्णित वर्णित है।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि (रु.)
नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र, नोएडा, उत्तर प्रदेश मे	रु. 5,29,00,000/−	₹. 52,90,000/-
स्थित प्लॉट नं. 11, ब्लॉक- ई, सेक्टर- XI, एरिया 1115	(रुपये पांच करोड़	(रुपये बावन लाख
वर्ग मी., चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. ई-29, सेक्टर- XI, दक्षिण	उन्नतीस लाख मात्र)	नब्बे हजार मात्र)
18 मी. चौड़ी सड़क XI, पूर्वः प्लॉट नं. ई–12, सेक्टर– XI, पश्चिमः 18 मी. चौड़ी सड़क XI.	कब्जा का प्रकार (भौतिक)/रचनात्मक
पारयमः १४ मा. पाड़ा सङ्क 📶.	रचन	ात्मक

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। प्रतिभूत क्रेडीटर का दावा ऋण वसूली अधिकरण के निर्णय के अधीन है। बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रका के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को देय राशि का ऋणधारक पूरी तरह से भूगतान कर देते हैं तो यह बिर्क्र रोक दी जायेगी। यह बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगी: ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 18 जून, 2020 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच पोर्टल https://disposalhube.com के माध्यम रं

- 1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ट जानकारी के अनुसार प्रस्तत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा।
- 2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,0000/- होगी।
- 4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ ''टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.'' के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड डाफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा।

5. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा व शर्ते वे कानुनी रूप से बोली

- करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मुल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षर स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
- 6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है। 7. सम्पत्ति का निरीक्षण 3 जून, 2020 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे सायं तक किया जा सकता है।
- 8. क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल पच्चीस प्रतिशत क्रय
- मुल्य का भगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। 9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी
- के पास करना होगा। उपरोक्त अवधि में भूगतान में चुक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। जमा की गई राशि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी। प्राधिकत अधिकारी की इच्छा पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। 10. टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी क
- विवरण शन्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणों: शून्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं। 11. विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेव
- प्रदाताः https://disposalhube.com से सम्पर्क कर सकते हैं। 12. टिप्पणी: इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी श्री जगदीप सहरावत, ई-मेल आईडी
- jagdeep.sehrawat@ TataCapital.com तथा मोबाईल नं. 8588806158 से सम्पर्क कर 13. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभृत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात्

www.tatacapitals.com/ tcfsl.html में दी गई लिंक देखें।

स्थानः दिल्ली-एनसीआर (नोएडा) तिथि: 27.5.2020 प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि

www.readwhere.com